

## कुसुमवति साध्वी अभिनन्दन ग्रन्थ (फोल्डर नं. ५२०३२)

मुख्य टाइटल	
श्रद्धा स्निग्ध समर्पण	
आशीर्वचन	
सन्देशे	
प्रकाशक के बोल	
आदिवचन	
दो शब्द	
स्वकीय	
क्या-कहाँ	
प्रथम खण्ड -----	१-१०२
श्रद्धार्चन -----	१-६०
शुभकामना-अभिनन्दन-----	६१-१०२
द्वितीय खण्ड – जीवन दर्शन -----	१०३-१८०
विदुषीवर्य्या साध्वीरत्न महासती -----	१०३
श्री कुसुमवती जी म. का जीवन दर्शन... -----	१०९
परम विदुषी महासती श्री सोहनकुँवरजी म. -----	११७
जन्म से दीक्षा तक -----	१२१
संयम साधना -----	१३५
व्यक्तित्व की विशेषताएँ -----	१६३
अतीत की स्मृतियाँ -----	१६७
स्थापित संस्थाओं का परिचय -----	१७१
विशिष्ट व्यक्तित्वों से सम्पर्क -----	१७३
महासती श्री कुसुमवती जी म.सा. का धर्म परिवार -----	१७६
चातुर्मास सूची-----	१८०
तृतीय खण्ड – धर्म तथा दर्शन -----	१८१-२७४
एक को जानो – डॉ. अमरनाथ पाण्डेय -----	१८१
जैन दर्शन सम्मत आत्मा का स्वरूप विवेचन – डॉ. एम. पी. पटैरिया-----	१८५
सामाजिक चरित्र के नैतिक उत्थान में – प्रो. चन्द्रशेखर राय -----	१९४
जैन धर्म में व्यसनमुक्त जीवन का तुलनात्मक अध्ययन – प्रो. जनेश्वर मौआर-----	१९९
जैन पदार्थ-विवेचना में वैज्ञानिक दृष्टि – डॉ. नवलता -----	२०१
कर्म सिद्धान्त-एक समीक्षात्मक अध्ययन – साध्वी श्रुतिदर्शनाश्रीजी -----	२०९
विश्व धर्म के रूप में जैन धर्म दर्शन की प्रासंगिकता – डॉ. महावीरसरन जैन -----	२१३
पुद्गल विवेचन-वैज्ञानिक एवं जैन आगम की दृष्टि में – डॉ. रमेशचन्द्र जैन -----	२२१

जैन दर्शन में द्रव्य की धारणा और विज्ञान – डॉ. वीरेन्द्रसिंह -----	२२४
प्रमा की नयी परिभाषा – प्रो. संगमलाल पाण्डेय -----	२२९
भारतीय योग परम्परा में जैन आचार्यों के योगदान का मूल्यांकन – डॉ. ब्रह्ममित्र अवस्थी ----	२३२
आगम साहित्य में ध्यान का स्वरूप – युवाचार्य डॉ. शिव मुनि -----	२४१
ध्यान-रूप-स्वरूप-एक चिन्तन – डॉ. साध्वी मुक्तिप्रभाश्रीजी-----	२४६
आत्मा के मौलिक गुणों की विकास प्रक्रिया के निर्णायक-गुणस्थान – श्री गणेश मुनि शास्त्री -----	२४९
भारतीय दर्शन-चिन्तन की रूपरेखा – पं. देवकुमार जैन -----	२६५
चतुर्थ खण्ड – जैन संस्कृति के विविध आयाम -----	२७५-३५६
श्रमण संस्कृति – आचार्य राजकुमार जैन -----	२७५
महाव्रतों का युगानुकूल परिवर्तन – मुनि श्री कन्हैयालालजी -----	२८४
केवलज्ञान और केवलदर्शन, दोनों उपयोग युगपत् नहीं होते – कन्हैयालाल लोढा -----	२८७
भौतिक और अध्यात्म विज्ञान – श्री रमेश मुनि -----	२९२
सर्वोदयी विचारों की अवधारणा के प्रेरक जैन सिद्धान्त – डॉ. शारदा स्वरूप -----	२९६
जागे युवा शक्ति – श्री देवेन्द्र मुनि -----	२९९
भगवान् महावीर के सिद्धान्तों का दैनिक जीवन में उपयोग – डॉ. नरेन्द्र भानावत -----	३११
श्रमण संस्कृति का व्यापक दृष्टिकोण – साध्वी दिव्यप्रभाश्रीजी -----	३१४
अदत्तादान-विरमण की वर्तमान प्रासंगिकता – ब्रजनारायण शर्मा -----	३१७
प्राचीन भारतीय दण्डनीति – डॉ. तेजसिंह गौड़ -----	३२३
भगवान् महावीर और उनके द्वारा संस्थापित नैतिक मूल्य – डॉ. रामजीराय आरा-----	३२८
अहिंसाया अन्तर्लिपि: – डॉ. केवलचन्द्र दाश -----	३३१
जैन शिक्षा बनाम आधुनिक शिक्षा - विजयकुमार -----	३३४
धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा – डॉ. हेमलता तलसेरा -----	३३८
चारित्रिक संकट से मुक्ति अहिंसा और सामाजिक परिवर्तन-आधुनिक सन्दर्भ – प्रो. कल्याणमल लोढा -----	३४३
संस्कृत साहित्य और मुस्लिम शासक – श्री भंवरलाल नाहटा -----	३५२
पंचम खण्ड – जैन साहित्य और इतिहास -----	३५७-४३६
भारतीय पुरातत्व की अवहेलना – डॉ. जगदीशचन्द्र जैन -----	३५७
आकार-चित्र रूप स्तोत्रों का संक्षिप्त निदर्शन – डॉ. रुद्रदेव त्रिपाठी -----	३६१
भारतीय गणित के अंध युग में जैनाचार्यों की उपलब्धियाँ – डॉ. परमेश्वर झा -----	३६९
जैन भूगोल का व्यावहारिक पक्ष – डॉ. पुष्पलता जैन -----	३७५
भगवती सूत्र में परामनोविज्ञान एवं पराशक्तियों के तत्व – श्री सौभाग्यमुनि -----	३७८
जम्बूद्वीप और आधुनिक भौगोलिक मान्यताओं का तुलनात्मक विवेचन – डॉ. हरीन्द्रभूषण जैन -----	३८३
जैन-स्तोत्र-साहित्य – एक विहंगम दृष्टि – डॉ. गदाधरसिंह -----	३९३

नीतिकाव्य के विकास में हिन्दी जैनमुक्तक काव्य की भूमिका – डॉ. गंगाराम गर्ग-----	४०३
जैनाचार्य श्री हरिभद्र सूरि और श्री हेमचन्द्र सूरि – हजारीमल बाठिया -----	४१३
जैन परम्परा के व्रत उपवासों का आयु वैज्ञानिक वैशिष्ट्य – कन्हैयालाल गौड़ -----	४१६
आचार्य हरिभद्र के प्राकृत योग ग्रन्थों का मूल्यांकन – डॉ. छगनलाल शास्त्री -----	४२४
पुण्य और पाप – महासती श्री कुसुमवतीश्रीजी -----	४३६
षष्ठम खण्ड -----	४३७-४७४
भारतीय स्वातन्त्र्यान्दोलन की अहिंसात्मकता में महावीर के जीवन दर्शन की भूमिका –	
प्रह्लाद नारायण वाजपेयी -----	४३७
पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में जैन नैतिक अवधारणा – प्रो. एल. के. ओड-----	४४१
विवाद-परिवाद के समाधान हेतु अनेकान्तवाद – डॉ. संजीव प्रचंडिया -----	४४८
जैन विचारधारा में शिक्षा – चांदमल कर्णावट -----	४४९
क्या हम बदल गये हैं – डॉ. आदित्य प्रचंडिया -----	४५६
सर्वोदयी विचारों की अवधारणा के प्रेरक जैन सिद्धान्त – लक्ष्मीचन्द्र जैन -----	४५९
ध्यान-एक विमर्श – डॉ. दरबारिलाल कोटिया -----	४६५
सती प्रथा और जैन धर्म – प्रो. सागरमल जैन -----	४६८
सप्तम खण्ड – विचार मन्थन -----	४७५-५३६
प्रवचन	
साधना का सारतत्व-समता -----	४७५
अन्तर्यात्रा-एक दृष्टि -----	४७८
वाणी-विवेक -----	४८२
संयम का सौन्दर्य -----	४८६
मन ही माटी, मन ही सोना-----	४८९
चिन्तन सूत्र	
सुख और दुःख -----	४९३
जीवन का अभिशाप-दुर्व्यसन -----	४९४
ससद्गुणों का प्रचार हो -----	४९५
तर्क और श्रद्धा -----	४९६
लघु निबन्ध – नारी-नारायणी-----	४९७
निबन्ध	
जैन दर्शन में अनेकान्त -----	४९८
सम्यग्दर्शन का स्वरूप -----	५०२
कहानी	
वैर और वैरी -----	५०५
गिरे तो गिरे, पर उठे भी बहुत ऊंचे -----	५०८
विचार कण -----	५१३

उपदेशात्मक पद्य रचना -----	५२२
भजन -----	५२३
महासती श्री कुसुमवतीजी महाराज का साहित्य-एक समीक्षा – श्री राजेन्द्र मुनि -----	५२५
बालब्रह्मचारिण्याः श्रीमत्याः कुसुमवत्याः सत्याः यशःसौरभम् -----	५३०
परिशिष्ट-----	५३७-५८४
जैनाचार-एक विवेचन – श्री राजेन्द्र मुनि -----	५३७
जैन दर्शन का हृदय है-स्याद्वाद – विदुषी साध्वी चारित्रप्रभाश्रीजी -----	५४८
उपमिति भव प्रपंच कथा-कितना – साध्वी दिव्यप्रभाश्रीजी -----	५५४
सार्थक है सिद्धर्षि का रचना उपक्रम – साध्वी गरिमाश्रीजी -----	५६१
जैन संस्कृति और उसका अवदान जैनाचार का प्राण अहिंसा – साध्वी अनुपमाश्रीजी -----	५६७
दीक्षा सप्तविंशति – रमेश मुनि शास्त्री -----	५७७
सम्माननीय सहयोगी -----	५७९